

## प्रेस विज्ञप्ति

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- मई 29, 2021**

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 18 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*अबकारी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही-\***

**\*थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*-** अभियुक्ता पूनम पत्नी दिलीप कुमार नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -107/2021 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**\*थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*-** अभियुक्तगण 1. जवाहर पुत्र आशिका नि0 गेणला थाना घुघली 2. राकेश पुत्र कैलास चौरसिया नि0 चैनपुर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से क्रमशः 10 ली0 व 20 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -110/127/2021 धारा-60(1) अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**विवेचनाओं का निस्तारण-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-07 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 28/29-05-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 08 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

